

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 206] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1965/भाद्र 6, 1887

No. 206] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1965/BHADRA 6, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines and Metals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August 1965

S.O. 2702.—In pursuance of clause 4 of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines and Metals), No. S.O. 1732, dated the 1st June, 1965, namely:—

In the said notification, in Table III, for the existing entries in the second, third and fourth columns against the entry in the first column, "Margherita collieries of the Assam Railways and Trading Company", the following entries shall be substituted, namely:—

Run-of-mine	36'00	35'43
Dust coal	36'00	35'43
Hand picked coal	42'50	41'83
Hard coke	95'82	94'31"

[No. C5-12(11)/65.]

CHHEDI LAL, Jt. Secy.

(815)

